

प्रेस नोट बिजनौर पुलिस दिनांक-28.12.2020

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा धारा 304बी भादवि के अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.12.2020 को वादी सुभाष सिंह पुत्र कल्याण सिंह नि० ग्राम बीवडा खुर्द थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा के द्वारा थाना हाजा पर अपनी पुत्री श्रीमती प्रीति पत्नि रोहित नि० ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर की फांसी लगाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रा०पत्र दिया था । प्रा०पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 654/20 धारा 498ए/323/504/304बी भादवि व ¾ दहेज अधि० बनाम रोहित (पति), विरेन्द्र (ससुर), पुष्पा देवी (सास), मोहित (जेठ) नि०गण ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा बिजनौर पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभि०गण में से रोहित पुत्र विरेन्द्र सिंह व श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि विरेन्द्र सिंह नि० ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को आज दिनांक 28.12.2020 को समय करीब 11.15 बजे नल तिराहा ठाकुरद्वारा रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों को मा० न्यायालय पेश किया जाएगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- रोहित पुत्र विरेन्द्र सिंह नि० ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2- श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि विरेन्द्र सिंह नि० ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 654/20 धारा 498ए/323/504/304बी भादवि व ¾ दहेज अधि० थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह
2. उ०नि० श्री अजीत सिंह
3. का० 1088 देवपाल
4. म०का० 814 प्रियंका



थाना चांदपुर- आज दिनांक 28.12.2020 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण1-विनोद पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम रतुआ नगला थाना टांडा जनपद रामपुर 2-अरविंद्र पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम चमरुरा थाना मूढापांडे जनपद मुरादाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 721/20 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोस्को अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।



थाना चांदपुर- आज दिनांक 28.12.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन पुत्र दौलत सिंह मोहल्ला चौधरियान थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



आज दिनांक 28.12.2020 को जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बिजनौर के निर्देशन में समस्त उप-जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्र के किसानों के साथ गोष्ठी कर भारत सरकार द्वारा पारित किये गये कृषि विधेयक के महत्त्व की जानकारी दी गयी तथा उनकी क्षेत्रीय समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराया गया।







आज दिनांक 28.12.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात, बिजनौर पर क्षेत्र के किसानों के साथ गोष्ठी कर भारत सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक के महत्त्व के बारे में बताया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया गया।





आज दिनांक **28.12.2020** को थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा द्वारा उ०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों बाजारों में मंचलो पर शिकंजा कसा ।





आज दिनांक **28.12.2020** को एंटी रोमियो जिला प्रभारी बिजनौर द्वारा इंदिरा पार्क में महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक करते हुए हेल्पलाइन नंबर **1090, 181, 112, 1098, 102, 108** व हेल्पलाइन नंबर **1076** के बारे में भी बताया गया साथ ही कोविड-19 तथा ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जागरूक किया गया।



